

APIS INDIA LIMITED

18/32, East Patel Nagar, New Delhi 110 008 India
T +91 11 4320 6650 F +91 11 2571 3631
E mail@apisindia.com W apisindia.com

AIL/CS/2019-20/95

September 05, 2019

To
The Manager,
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Notice of 37th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a copy of Newspaper Advertisement published on 05th September, 2019 in 'The Financial Express', English Newspaper and "The Jansatta", Hindi Newspaper regarding the "Notice of 37th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure" in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on records.

Thanking You,

For **APIS India Limited**

Vimal Anand
(Managing Director)
DIN. 00951380



Encl: a/a

SAHYOG MULTIBASE LIMITED

(Formerly Sahyog Credits Limited)
 CIN: L74110DL1992PLC116773
 Regd. Office: House No. 9, Road No. 13, East Punjabi Bagh, New Delhi – 110026
 Ph. No.- 011-40109341, Email: sahyogcreditslimited@yahoo.in, Website: www.sahyogmultibaselimited.com

NOTICE OF 28th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **28th ANNUAL GENERAL MEETING** of the shareholders of **Sahyog Multibase Limited** (CIN L74110DL1992PLC116773) will be held on **Saturday, 28th September, 2019** at 5/2, Agarwal Bhawan, Jaidev Park, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026 at **11.00 A.M.** to transact the Ordinary and Special businesses, as set out in the Notice of AGM.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books of the Company will remain close from **22nd September, 2019 to 28th September, 2019 (Both days inclusive)** for **28th Annual General Meeting** of the Company and Dividend Declaration.

Notice of AGM and Annual Report for 2018-19 has been sent to all the members whose e-mail IDs were registered with the Company/Depository Participants (DPs) through Email and Physical copies have been sent to registered address by permitted mode to all other members. The dispatch of Notice has been completed on 04.09.2018.

In compliance with the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company has made arrangements for members to exercise their votes on the resolutions as set out in the Notice of AGM by electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"). Kindly refer the Notice of AGM regarding the instructions on e-voting. The Notice and Annual Report 2018-19 is/will be also available on the website of NSDL [https:// www.evoting.nsdl.com](https://www.evoting.nsdl.com) and is also available on the Company's website www.sahyogmultibaselimited.com.

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is hereby informed that:

- The Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- The Shareholders of the Company holding shares as on cut-off date i.e. **21st September, 2019** shall be entitled to cast their vote electronically according to instructions mentioned in Notice of AGM and at the AGM, if not exercised electronically.
- The remote e-voting shall commence on **Tuesday, 24th September, 2019 (09.00 a.m.)** and ends on **Friday, 27th September, 2019 (05.00 p.m.)**. No remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time.
- Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM. Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: **1800-222-990** or contact **Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020**.

For Sahyog Multibase Limited
 Sd/-
Himanshi Negi
 Company Secretary and Compliance Officer

Date: 04.09.2019
 Place: New Delhi

APIS INDIA LIMITED

Regd. Office: 18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110008
 Tel: 011-43206650; Fax: 011-25713631; E-mail: mail@apisindia.com
 Website: www.apisindia.com, CIN: L51900DL1983PLC164048

NOTICE OF THE 37th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **37th Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of the APIS India Limited ("the Company") will be held on **Monday, 30th day of September, 2019 at 10:00 A.M.** at the Registered Office of the Company at **18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110008**, to transact the items of ordinary & Special businesses as set out in the notice of the 37th AGM dated August 14, 2019.

The Electronic copies of the Notices of the 37th AGM and Annual Reports containing, inter alia, the Audited Financial Statements (Consolidated & Standalone) for financial year ended March 31, 2019 and Reports of the Auditors and Director's thereon, have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of notice of AGM has been completed on September 04, 2019.

Members are hereby informed that the aforesaid Notice and Annual Report are available at the Company's website www.apisindia.com and are also available for inspection during the business hours, at the registered office of the company upto the date of Annual General Meeting.

In compliance with the provisions of Section 108 read with Rule 20 and 21 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and clause 7.2.1 of the Secretarial Standard-2, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through e-voting services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). All members are hereby informed that:

- The business as set out in the 37th Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting shall commence at 9:00 A.M. (IST) on Friday, September 27, 2019 and will end at 5:00 P.M. (IST) on Sunday, September 29, 2019. The e-voting shall not be permitted beyond 05:00 P.M. (IST) on September 29, 2019. The e-voting module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The shareholders holding shares either in physical form or in dematerialized form as on Monday, September 23, 2019, being cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as voting in the AGM.
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, September 23, 2019 may obtain the Login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining Login ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on the Company website (www.apisindia.com) and CDSL website (www.evotingindia.com). However if the member is already registered with CDSL for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote through remote e-voting.
- The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid equity share capital of the company as on the cut-off date i.e. Monday, September 23, 2019.
- The facility for voting through ballot paper will also be made available at the AGM and Members attending the AGM, who have not already cast their vote by Remote E-voting shall be entitled to participate and vote at the venue of the AGM through ballot paper.
- The members who have cast their vote by Remote E-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Monday, September 23, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through polling paper at the AGM.
- For the process and manner of the E-Voting members may go through the instructions in the Notice of 37th AGM. The Annual Report, Notice of AGM of the company and others documents are also available on the Company's website www.apisindia.com and website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) www.evotingindia.com
- In case of any queries, members may refer to the "Frequently Asked Questions" (FAQs) for shareholders and "e-voting manual" available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- Members may address their queries/grievances connected with respect to e-voting to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on Toll Free no. 1800-200-5533.
- Mr. Anand Kumar Singh, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
- The results of the e-voting alongwith the results of poll conducted at the AGM alongwith report of Scrutinizer shall be declared on or after the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall also be placed on the Company's website www.apisindia.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com within 48 hours from the conclusion of Annual General Meeting and the results shall be communicated to the Stock Exchange, where the equity shares of the Company are listed.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule made thereunder and Regulation 42 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed during the book closure period i.e. **from Monday, September 23, 2019 to Monday, September 30, 2019** (both days inclusive) for the purpose of the 37th Annual General Meeting.

For APIS India Limited
 Sd/-
Vimal Anand
 Managing Director
 DIN:00951380

Date: September 04, 2019
 Place: New Delhi

Notes: A member entitled to attend and vote at the 37th AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the Company. A proxy form, in order to be effective must be lodged at the registered office of the Company duly completed and signed not less than 48 hours before the commencement of the AGM.
The proxy holder shall prove his/her identity at the time of attending the meeting.

CMI LIMITED
 CIN L74899DL1967PLC018031
 Regd. Office: 501-503, 5th Floor New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001
 Phone: + 91 11 49570000 Fax : + 91 11 23739902
 Email: info@cmlimited.in, Website: www.cmlimited.in

NOTICE OF THE 52nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 52nd Annual General Meeting of CMI LIMITED will be held on Monday, 30th September, 2019 at 11:30 A.M. at Navkar Banquets Hall, Caspia Hotel Complex, Outer Ring Road, Shalimar Park, Delhi-110088 to transact the Ordinary and Special Business specified in the Notice dated 13th August, 2019 and for which remote e-voting facility (i.e. facility of casting of votes using electronic voting system from place other than the venue of the meeting) is provided.

The Notice along with Annual Report have been sent to all members, whose names appeared in the register of members/ Record of RTA on Friday 23rd August, 2019, at their registered address/ email ID in the permitted mode.

Pursuant to the provisions of the Sections 91 of the Companies Act, 2013 and rules made there under and Regulation 42(2) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2019 to Monday 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the 52nd AGM of the Company.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote by electronic means provided by CDSL, on all resolutions set forth in Notice of AGM. The details as required under the aforesaid provisions are given hereunder:

- Date of Completion of dispatch of Notice: Wednesday 4th September, 2019.
- Date and time of Commencement of voting through electronic means: Friday, 27th September, 2019 at 9:00 A.M.
- Date and time of closing of voting through electronic means: Sunday, 29th September, 2019 at 5:00 P.M.
- Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Sunday, 29th September, 2019 at 5:00 P.M. and once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it, subsequently.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, 23rd September, 2019.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd August, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at the registered address to obtain Notice of the meeting and procedure for E-voting (including Login ID and password)
- The facility for voting through polling paper would be available at the venue of the AGM for members who have not already cast their vote by remote e-voting.
- A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote E voting but shall not be allowed to cast their vote again in the AGM.
- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as of the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot papers.
- The Notice of 52nd AGM is available on the Company's website www.cmlimited.in and on CDSL's Website www.evotingindia.com
- For electronic voting instructions Member may go through the instructions in the Notice of the 52nd AGM and in case of any queries /grievances connected with electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and evoting user manual for shareholders available at the help section of www.evotingindia.com or may write to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- In case of queries, members may contact Mr. Subodh Barnwal, Company Secretary at the above Registered Office or the Registrar and Transfer Agents at the following address: Beetal Financial and Computer Services (P) Limited, Beetal House, 3rd Floor 99 Madangir, New Delhi-110062 Tel: 011-29961281, 29961282, Fax: 011-29961284, E-Mail ID: beetalra@gmail.com

For CMI Limited
 Sd/-
Amit Jain
 Chairman cum Managing Director
 (DIN 00041300)

Date: 05-09-2019
 Place: New Delhi

GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
 (A Government of Gujarat Enterprise)
 Registered Office: Khanij Bhavan", 132 Ft. Ring Road, Near University Ground, Vastrapur, Ahmedabad-380 052 (Gujarat)
 Phone : 27910665/27911662/27913200/27913201 TeleFax : 079 - 2791 1151
 E-mail : cosec@gmcdcltd.com, Website : www.gmcdcltd.com CIN : L14100GJ1963SGC001206

NOTICE OF 56th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 56th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Monday, 30th September, 2019**, at 11:00 A.M., at the Registered office of the Company situated at "Khanij Bhavan", 132 Ft. Ring Road, Near University Ground, Vastrapur, Ahmedabad-380052 (Gujarat), to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2018-19 have been sent in electronic mode to the members whose e-mail IDs are registered with the Company or with the Depository participant(s). Physical copies of the said documents have been sent through courier to all the members at their registered address. The dispatch of notice of AGM is completed on 02.09.2019. These documents are also available on the Company's website viz. www.gmcdcltd.com.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the relevant Regulation of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, 24th September, 2019 to Monday, 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 56th Annual General Meeting of the Company and payment of annual dividend.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule made thereunder and also Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, Members holding shares in physical or dematerialized form as on the **cut-off date of Monday 23rd September, 2019** may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice to the 56th AGM of the Company through e-voting platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Company has appointed M/s Gaudana & Gaudana, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The detailed procedure instructions for e-voting are contained in the Notice of the 56th AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on 23rd September, 2019 (cut-off date) may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. If a member is already registered with CDSL e-voting platform, then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The e-voting period ("remote e-voting") begins on **Thursday, the 26th September, 2019 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Sunday 29th September, 2019 at 5.00 p.m. (IST)**. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of Monday, 23rd September, 2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the venue of the 56th Annual General Meeting. The members attending the meeting, who have not already cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights at the meeting.

For Details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Help section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800-200-5533. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, 25th Floor, A Wing, Marathon Futrex, Mafatlal Mills Compound, New Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013. Email : helpdesk.evoting@cdslindia.com Tel : 1800225533.

A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (AGM) is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the proxy, in order to be effective, must be deposited at the Company's Registered Office, duly completed and signed, not less than FORTY-EIGHT HOURS before the meeting. Proxies submitted on behalf of limited companies, societies, etc., must be supported by appropriate resolutions/authority, as may be applicable.

For Gujarat Mineral Development Corporation Limited
 Sd/-
Joel Evans
 Company Secretary

Date : September, 2019
 Place: Ahmedabad

MANDHANA INDUSTRIES LIMITED
 CIN: L17120MH1984PLC03553
 Registered Office: Plot No.C-3, M.I.D.C., Tarapur Industrial Area, Boisar, Dist. Palghar - 401 506
 Corporate Office: Marathon Futrex, Unit A-2402, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013.
 Telephone No. : +91-22-4353 9191 • Fax No. : +91-22-4353 9392
 Email: cs@mandhana.com • website: www.mandhana.com

NOTICE

Notice is hereby given that the **Thirty Fifth Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of Mandhana Industries Limited ("Company") will be held on **Thursday, the 26th day of September, 2019 at 11.00 a.m.** at Plot No. C-2, M.I.D.C., Tarapur Industrial Area, Boisar, District Palghar - 401506 to transact the business as set out in the Notice of the 35th AGM, dated 13th August, 2019 ("Notice").

The Notice convening the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2018-19 (physical copies) have been sent on 4th September, 2019 to the Members whose e-mail IDs were not registered with the Company/Depositories, to their registered addresses in permitted mode. Further, the aforesaid documents have also been sent electronically, on the same date to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company/Depositories.

Members are hereby informed that the Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2018-19 is also available on the Company's website www.mandhana.com and is also available for inspection at the Registered Office and Corporate Office of the Company upto the date of the AGM, during the business hours on all days except Saturdays, Sundays and public holidays. The Notice of the AGM including the Attendance Slip and Proxy Form can also be accessed on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

A Member entitled to attend and vote at the AGM, may appoint a Proxy to attend the AGM and vote instead of himself/ herself on a poll, and proxy need not be a Member of the Company. Proxies in order to be effective, must be received by the Company at its Registered Office/Corporate Office not later than forty-eight hours before the commencement of the AGM.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and the applicable Rules thereunder, is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 21st September, 2019 to Thursday, 26th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

E-voting:
 In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of India:

- The Company is offering to its Members the facility to cast their votes by electronic means on all resolutions set forth in the Notice, through the services provided by CDSL;
- the business may be transacted through voting by electronic means from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting");
- the day, date and time of commencement of remote e-voting is Monday, 23rd September, 2019, 09.00 a.m. (IST);
- the day, date and time of end of remote e-voting is Wednesday, 25th September, 2019, 5.00 p.m. (IST);
- Cut-off date for determining the eligibility of Members for remote e-voting and voting at the AGM is close of the business hours on Friday, 20th September, 2019
- Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Friday, 20th September, 2019, may obtain the login id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or cs@mandhana.com.
- The Members are requested to note that :
 - Remote e-voting shall not be allowed beyond Wednesday, 25th September, 2019, 5.00 p.m. (IST);
 - The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the AGM through polling paper;
 - A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the Meeting;
 - A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through polling paper at the AGM;
 - Website addresses of the Company and of CDSL where notice of the AGM is displayed: www.mandhana.com and www.evotingindia.com.
 - Name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with the facility for voting by electronic means:
Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013.
 Tel: 1800-200-5533, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For MANDHANA INDUSTRIES LIMITED
 Sd/-
VINAY SAMPAT
 VICE PRESIDENT - LEGAL & SECRETARIAL

Mumbai
 4th September, 2019

AKSH OPTIFIBRE LIMITED
 Corporate Identification No. (CIN) : L24305RJ1989PLC016132
 Regd Office: F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi-301019 (Rajasthan)
 Corporate Office: A-25, 2nd Floor, Mohan Co-operative Ind. Estate, Mathura Road, New Delhi-110044
 Tel: No. 011-26991508/09, Fax No. 011-26991510
 E-mail: investor.relations@akshoptifibre.com Website: www.akshoptifibre.com

NOTICE

E-Voting Information for 32nd Annual General Meeting

Notice is hereby given that 32nd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held at 11:30 AM on Monday, September 30, 2019 at the Registered Office of the Company at F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi-301019 (Rajasthan) to transact the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the 32nd AGM.

The Company has completed the dispatch of the Notice of the AGM and the Annual Report for 2018-19 on September 4, 2019. This communication and the Notice alongwith the Annual Report for 2018-19 are available at the websites: www.akshoptifibre.com, www.karvyintech.com. The communication relating to remote e-voting, inter-alia, containing user ID and password has been dispatched to the members.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of meeting (remote e-voting). The Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Limited (Karvy) as authorized agency to provide remote e-voting facility. The details of the remote e-voting are as under:

- Date and time of commencement of remote e-voting: **September 27, 2019 (9:00 a.m.)**
- Date and time of end of remote e-voting: **September 29, 2019 (5:00 p.m.)**
- The remote e-voting shall not be allowed beyond **September 29, 2019 (5:00 p.m.)**
- A person, whose name appears in the register of members / beneficial owners as on the cut-off date i.e. September 23, 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.
- A person, whose name appears in the register after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the USER ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the meeting which is available on the Company's website and Karvy's website. If the member is already registered with Karvy for a voting then he can use his existing USER ID and password for casting the vote through remote e-voting
- A facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their rights to vote at the meeting.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- In case of any queries/ grievances related to remote e-voting, the members/ beneficial owners may contact at the following address:
 Mr. Lakshman Murthy, Manager, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakrampada, Hyderabad - 500 032 at designated email IDs: evoting@karvy.com or at telephone nos. 040-67161500/ 9177404088. Members may also write to the Company Secretary at investor.relations@akshoptifibre.com or Company's registered office.
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday September 24, 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days inclusive) for the purposes of Annual General Meeting.

for Aksh Optifibre Limited
 Sd/-
Gaurav Mehta
 Chief-Corporate Affairs & Company Secretary

Date : September 4, 2019
 Place: New Delhi

VISISTH CHAY VYAPAR LIMITED
 CIN: L15491DL1985PLC019848
 A - 446, BASEMENT, DEFENCE COLONY, NEW DELHI - 110024
 Email ID: visisthcv17@gmail.com, Phone No. 033-66133300; Website: www.vcvl.in

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 27th September, 2019, at 2:00 PM at A-446 Basement, Defence Colony, New Delhi 110024, to transact the business as mentioned in the Notice of AGM sent along with the Audited Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2019, and the Board's Report and Auditors Report thereon.

Electronic transmission and physical dispatch of the Annual Report, 2019, along with the AGM Notice, Attendance Slip and Proxy Form, have been completed on September 4, 2019. The Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL), i.e. <http://www.evotingindia.com>. Notice is further given that the Company is providing electronic voting facility from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting") to the members to exercise their votes on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The company has engaged CDSL for providing e-voting facility. The details of remote e-voting are given below:

| |
|---|
| नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड <p>CIN: L65993DL1970PLC146414 फ़ोन:नंबर कार्यालय : 28, नज़फ़ग़द रोड, मौंती नगर इन्डियन एरिया, नई दिल्ली-110015 फोन नं. (011) 45021854, फ़ैक्स नं. (011) 45021982 ई-मेल आईडी: investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com</p> |
| सूचना |
| SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 के रेग्युलेशन 29 के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 14 सितंबर, 2019 को ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005 स्थित कम्पनी के शाखा कार्यालय में होगी, जिसमें, 30 जून, 2019 को समाप्त हुई प्रथम तिमाही के बिना अंकेक्षित किए स्टैंडअलायंग व कन्सोलिडेटेड वित्तीय खातों का अंकेक्षण किया जाएगा। |
| यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com व www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। |
| कौन नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड हैरारा / (वीचक नमं) मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| स्थान : हिसार |
| तिथि : 3 सितंबर, 2019 |

| |
|---|
| RITA FINANCE AND LEASING LIMITED <p>(Formerly known as Rita Holdings Limited) Regd. Off.: 324A, IITrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 E mail: ritaholdings2td@gmail.com, website: www.ritaholdings.in, M. No. 981260127 CIN: L67120DL1981PLC011741</p> |
| NOTICE ANNUAL GENERAL MEETING |
| Notice is hereby given that the Thirty Eighth Annual General Meeting of the members of RITA FINANCE AND LEASING LIMITED ("the Company") will be held on Friday, September 27, 2019 at 11:00 a.m. at 324A, IITrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting"). |
| The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e- mail address with the Depositories/Company. |
| The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice is available on the website of the Company (www.ritaholdings.in) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Sundays and Public Holidays, during business hours up to the date of the Meeting. |
| The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide e-voting facility. |
| The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.ritaholdings.in and on the website of NSDL: www.evoting.nsdl.com. |
| The remote e-voting facility shall commence on Tuesday September 24, 2019 from 9:00 a.m. and end on Thursday September 26, 2019 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. |
| A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Friday, September 20, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting. |
| Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in . The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting. |
| Member who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again. |
| RECORD DATE |
| NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Friday, September 20, 2019 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the Annual General Meeting. |
| For and on behalf of the Board Rita Finance and Leasing Limited Formerly known as Rita Holdings Limited |
| Kiran Mittal Director DIN: 00749457 |
| Place: New Delhi |
| Date: 04.09.2019 |

| | |
|--|--|
| पत्र पत्र | सार्वजनिक उद्घोषणा |
| | [भारत दिवसान तथा दिवालिगन मंडल (कॉर्पोरेट व्यवस्थापन के लिए दिवसान प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत] <p>विजय एक्स एक्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडिटर्स के ध्यानार्थ</p> |
| | संबन्धित विवरण |
| 1. कॉर्पोरेट अग्रधारक का नाम | साईप्रस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. कॉर्पोरेट अग्रधारक के निगमन की तिथि | 27 जुलाई, 1995 |
| 3. यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट अग्रधारक नियमित/पंजीकृत है | कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली |
| 4. कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट अग्रधारक का लिमिटेड आयोग/टीडी पहचान संख्या | U74899DL1995PT071191 |
| 5. कॉर्पोरेट अग्रधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमाण कार्यालय (यदि कोई हो) का पता | प्लॉट नं. 502, उमा तल, सहयोग विल्डिग-58, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 |
| 6. कॉर्पोरेट अग्रधारक के संदर्भ में दिवसान आरंभ होने की तिथि | 23 अगस्त, 2019 (माननीय एलसीओएस से आरंभ आदेश से 30 अगस्त, 2019 को सूचना प्राप्त की) |
| 7. दिवसान प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमति तिथि | 18 फरवरी, 2020 |
| 8. अंतिम प्रस्ताव प्रक्रियाल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतिम प्रस्ताव प्रक्रियाल के रूप में कार्य करे। | नाम: श्री गौपाल लाल खरूर <p>सं.सं.: IBBJ/PA-002/JP-N00553/2017-2018/11677</p> |
| 9. बीई में क्या पंजीकृत अंतिम प्रस्ताव प्रक्रियाल का पता एवं तिथि | पंजी. पता: मकान सं. एम 356, प्रथम तल, आरिंद आइंस्टेड, सेक्टर 51, गुडगाँव, हरियाणा, 122001 <p>ई-मेल: gopal_bhai1972@gmail.com</p> |
| 10. अंतिम प्रस्ताव प्रक्रियाल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल | पता: गैरसंकेत रिजर्व्हेड प्रक्रियाल एल्लेन्स, 905, 09 वां तल, टावर सी, यूकेटिक् विक्सस जेता, ड ब्लोक साउथ, सेक्टर-50, गुडगाँव, हरियाणा-122018 <p>ई-मेल: cirp_wiaxnixmpc@gmail.com</p> |
| 11. दावे जमा करने की आंतिम तिथि | 13 सितम्बर, 2019 |
| 12. क्रेडिटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उभ धारा (ए) के उपखण्ड (बी) के अंतर्गत, अंतिम प्रस्ताव प्रक्रियाल द्वारा सूचित/यथा किया गया | शिवविज क्रेडिटर्स |
| 13. किसी वर्ग में क्रेडिटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पत्रचान किये गये इन्सॉल्वेंसी प्रक्रियाल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम) | 1. श्री वृष नन्दन कार्ता-IBBJ/PA-003/JP-N00014/2017-18/10103 <p>2. श्री अनुराग निरवाला-IBBJ/PA-001/JP-P00870/2017-18/11468 <p>3. श्री अनिल वासन-IBBJ/PA-001/JP-P01118/2018-19/11818</p></p> |
| (क) क्रेडिटर प्रवेश ताल | के) www.ibbi.gov.in |
| (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण उपलब्ध है। | ख) www.resangent.com |
| एल्टरद्दारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिनियम, नं 23 अगस्त, 2019 को (माननीय एलसीओ, नई दिल्ली से आरंभ आदेश नं 30 अगस्त, 2019 को सूचना प्राप्त की) रिजर्व्हेड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एल्टरद्दारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल के अंतर्गत कॉर्पोरेट अग्रधारक का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम) | |
| यह उद्देश्य पूर्व आदेश दावे का प्रमाण जमा करे। | |
| फ़ारसियन क्रेडिटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडिटर्स व्यवस्थित, डाक द्वारा अपना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। | |
| दूसरा क्रम: अधिनियम क्रेडिटर्स, शिवविज क्रेडिटर्स, कर्मियों अपना कर्तव्यपूर्ण, कर्मियों एवं कर्मचारियों के समूह के प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं अन्य क्रेडिटर्स द्वारा भारत दिवसान एवं दिवसानिय मंडल (कॉर्पोरेट व्यवस्थापन के लिये दिवसान प्रस्ताव) विनियमन 2016 के विनियमन, 7.8, अट्ट, 9 एवं अट्ट के अन्तर्गत लिमिटेड प्रक्रिया की, सी, सीए, डी, ई एवं एफ, जेता भी मामला हो, में जमा किया जा सकते हैं। | |
| प्रक्रिया सं. 12 के अन्तर्गत सूचित किया जाने से संबंधित वित्तीय क्रेडिटर प्रवेश ताल में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए सूचित है। 13 के अन्तर्गत सूचीकृत तीन इन्सॉल्वेंसी प्रक्रियाओं में से प्रत्येक प्रक्रिया की अपनी वेबसाईट पर दावे का जमा करना आवश्यक प्रमाण जमा करने पर दीर्घ किया जा सकता है। | |
| | हस्ता. /- गौपाल लाल खरूर <p>अंतिम प्रस्ताव प्रक्रियाल <p>स्थान: नई दिल्ली</p> <p>पंजी. सं.: IBBJ/PA-002/JP-N00553/2017-2018/11677</p></p> |

| |
|---|
| मान एल्यूमीनियम लिमिटेड |
| पूर्व में मन एल्यूमीनियम लिमिटेड के रूप में डाटा पंजी. कार्यालय: 4/5, पहली मंजिल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली -110002 सौभाग्यनं. L300071D12003PLC144485, फ़ोन: 40081800, ईमेल: cs@maanaluminium.in, वेबसाइट: www.maanaluminium.com |
| 14वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और लेखा वही लेखकी की सूचना |
| कंपनी की 16वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) शुक्रवार, 27 सितंबर, 2019 को दिल्ली की बंग रिजिडेंट होटल, मन जीटी कनवेल रोड, नई दिल्ली में सुबह 11 बजे, सूचना दिनांक 13 अगस्त, 2019 व 2019 वित्तीय कागजातों के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी। 14वीं एजीएम की सूचना और सूचिकाएँ पंजी. प्रॉक्सी फॉर्म और 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट सहित रिमोट ई-वोटिंग के निदेश उभ सूची सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मांस के माध्यम से भेजा जाएगा है, जिसके अंतर्गत आईडी कंपनी डिजिटॉलिज्ड (पीएच) के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेजों की मतिगत प्रतियाँ अन्य सदस्यों को अनुमत माध्यम से उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं। |
| कंपनी (भारत और प्रशासन) संचालन निगम, 2016 द्वारा क्या संशोधित कंपनी (भारत और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के तहत उद्घाटन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, और सेबी (सूचीकरण और वार्षिक अर्थात्) विनियम, 2015, के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने और प्राधिकृत आम बैठक को नियंत्रित में निर्धारित कागजातों को ऐसे मतदान के माध्यम से सत्यापित करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों द्वारा एजीएम को अत्याय अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा नेशनल डिजिटॉलिज्ड डिजिटॉलिज्ड लिमिटेड (NSDL) द्वारा प्रदान की जाएगी। |
| कंपनी अधिनियम, 2013 और क्या संशोधित उक्त नियमों के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार विवरण नीचे दिए गए हैं। |
| क) एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष कागजात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। |
| ख) रिमोट ई-वोटिंग मतदाताएं, 24 सितंबर, 2019 को सुबह 9 बजे शुरू और शुक्रवार 26 सितंबर, 2019 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। शुक्रवार 26 सितंबर 2019 को शाम 05.00 बजे बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
| ग) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एजीएम में मतदान की पात्रता निर्धारित करने की कट ऑफ़ तारीख शुक्रवार, 20 सितंबर, 2019 है। |
| घ) वे सदस्य जिन्का नाम कट-ऑफ़ तारीख को सदस्यों के रजिस्टर में या डिजिटॉलिज्ड द्वारा रखे गए नामावली स्थानियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगी। |
| च) यह सदस्य जिसने शेयर प्राप्त किए हैं और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बने हैं और कट-ऑफ़ तारीख अर्थात् 20 सितंबर, 2019 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in को एक अनुरोध भेजकर जीपीएम आईडी को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि, पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल से पंजीकृत होने पर, आप अपना वोट डालने के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। |
| ज) वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी वेबसाइट www.maanaluminium.com और शार्लट डिजिटॉलिज्ड डिजिटॉलिज्ड लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। |
| ड) किसी भी पृष्ठभाग के लिए आप सदस्यों के लिए अक्षर सूची जमा करने वाले धारण (FAQ) और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड आनुवंशिक में उपलब्ध सदस्यों के लिए एजीएम सूचनाई मैनुअल उपलब्ध कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं। |
| इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सदस्य कंपनी सचिव को निम्न पते पर भी लिख सकते हैं। |
| नाम: श्री वीरपि सुभार अववाल,पदावन: सौपाओ और कंपनी सचिव,पता: मान एल्यूमीनियम लिमिटेड, 4/5, पहली मंजिल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली -110002ईमेल: cs@maanaluminium.in फोन: 011-40081800-30 |
| ज) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अधेशार) विनियम, 2015 के विनियम 42 और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के संदर्भ में, कंपनी को सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहिष्ता कंपनी की एजीएम के प्रयोगन से शनिवार, 21 सितंबर, 2019 से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2019 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रहेगी। |
| वोट के आवेधानुसार कृपे मान एल्यूमीनियम लिमिटेड |
| हस्ता. /- सुभार अववाल |
| संघीय अधिकारी |
| (सीएफओ और कंपनी सचिव) |
| स्थान: नई दिल्ली |
| तिथि: 06.09.2019 |

फेसबुक नहीं देगा टैग करने के लिए सुझाव

सैन फ्रांसिस्को, 4 सितंबर (एपी)।

फेसबुक ने फोटो अपलोड करने पर चेहरा पहचानने वाले अपने उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग बंद करने का फैसला किया है जो यूजरों को ‘टैग’ संबंधी सुझाव देता था। फेसबुक ने बताया कि वह ‘टैग’ संबंधी सुझाव देने वाली सेवा के बजाए चेहरा पहचानने वाली ऐसी सैटिंग मुहैया करा रहा है जो केवल टैग करने के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न इस्तेमाल के लिए फोटो में लोगों का

चेहरा पहचानती है।

यह फीचर यूजरों को मंगलवार से उपलब्ध कराया गया। फेसबुक यूजरों को ‘टैग सजेसन’ के फीचर के बजाए अब ‘फैस रिकनिशन सैटिंग’ का विकल्प मिलेगा, जिसे ‘ऑन या ऑफ’ किया जा सकता है। ‘टैग सजेसन’ फीचर को लेकर इलिनोइस में फेसबुक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था और संघीय अपीली अदालत ने इस मामले पर व्यवस्था दी है कि सुनावली की जा सकती है।

यूनिसेफ की बैठक में

कश्मीर मुद्दा उठाने के पाक के प्रयासों पर भारत ने पानी फेरा

नई दिल्ली/ कोलंबो, 4 सितंबर (भाषा)।

श्रीलंका में यूनिसेफ के एक कार्यक्रम में कश्मीर मुद्दा उठाने के पाकिस्तान के प्रयासों को भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने विफल कर दिया। इससे कुछ दिन पहले भी भारत ने मालदीव में क्षेत्रीय बैठक में ऐसे एक प्रयास को सफल नहीं होने दिया था।

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबो में मंगलवार को बाल अधिकार समझौते पर हुए यूनिसेफ के दक्षिण एशियाई संसदीय सम्मेलन में कश्मीर में अधिकार मुद्दों को उठाने की कोशिश की जिसपर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अल्पसंख्यकों के अधिकार मुद्दों पर पाकिस्तान के रिकॉर्ड की निंदा की।

गोगोई ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को मानवाधिकारों, अल्पसंख्यकों की दुर्दशा और ‘ईश निंदा कानून’ के संबंध में उनके देश की आंतरिक स्थिति की याद दिलाई। गोगोई और भाजपा सांसद संजय जायसवाल को कार्यक्रम के एक वीडियो फुटेज में देखा गया जिसमें वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। दोनों भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। बाद में एक वीडियो बयान में गोगोई ने कहा कि यह, ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों पर आयोजित सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया।

‘पाक सिख किशोरी के मुद्दे को सद्भावना से सुलझाया गया’

लाहौर, 4 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिख किशोरी को कथित तौर पर अगवा करने के बाद इस्लाम धर्म कबूल करवाने और एक मुस्लिम व्यक्ति से उसकी शादी कराने के मुद्दे को दोनों परिवारों ने मिलकर सुलझा लिया है।

प्रांतीय गवर्नर चौधरी मुहम्मद सरवर ने यह दावा किया है। जागीजत कौर नामक लड़की के परिवार ने शुक्रवार को वीडियो संदेश में आरोप लगाया था कि उसका अपहरण कर लिया गया है और जबरन उसे इस्लाम कबूल करवा लिया गया है। लड़की के परिवार का कहना है कि उसकी उम्र 18 साल है। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। हालांकि नेशनल डेटावेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी के अनुसार लड़की की उम्र 19 साल है। मामले में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक संदिग्ध अरसलान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह सिख लड़की से शादी करने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद हसन का दोस्त है।

हांगकांग का विवादित प्रत्यर्पण विधेयक वापस लिया जाएगा : लैम

हांगकांग, 4 सितंबर (एएफपी)।

हांगकांग की नेता ने बुधवार को घोषणा की विवादित प्रत्यर्पण विधेयक को वापस लिया जाएगा। इस विधेयक के चलते शहर में लोकतंत्र के समर्थन में पिछले तीन महीने से रैलियां और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

इस घोषणा के साथ ही मुख्य कार्यकारी कैरी लैम प्रदर्शनकारियों की पांच प्रमुख मांगों में से एक के आगे झुक गईं। हांगकांग पर चीन के अर्ध स्वायत्त शासन को सबसे

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबो में मंगलवार को बाल अधिकार समझौते पर हुए यूनिसेफ के दक्षिण एशियाई संसदीय सम्मेलन में कश्मीर में अधिकार मुद्दों को उठाने की कोशिश की जिसपर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अल्पसंख्यकों के अधिकार मुद्दों पर पाकिस्तान के रिकार्ड की निंदा की।

उन्होंने कहा, ‘हमने उन्हें ठीक से याद दिला दिया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अंशिन हिस्सा है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा भारतीय लोकतंत्र के सज्जेदारों के तौर पर एक भारतीय आवाज सुनी जाएगी न कि छिपे हित वालों की, न विदेश की और पाकिस्तान की तो निश्चित तौर पर नहीं।’

इससे पहले रविवार को मालदीव में हुए ‘साउथ एशियन स्पीकर्स समिट’ में कश्मीर मुद्दा उठाने के पाकिस्तान के प्रयासों पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई थी। शिखर वार्ता में मौजूद भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को दिए जाने वाले सभी समर्थन को खत्म करना होगा और आतंकवाद मानता के लिए ‘सबसे बड़ा खतरा है।’ पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ‘सतत विकास लक्ष्यों’ पर चर्चा के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने का प्रयास किया था।

प्रधानमंत्री जॉनसन का 15 अक्टूबर को ब्रिटेन में मध्यावधि चुनाव का प्रस्ताव

लंदन, 4 सितंबर (एएफपी)।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 15 अक्टूबर को देश में मध्यावधि चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने लेबर पार्टी के अपने प्रतिद्वंद्वी जेरेमी कॉर्बिन को चुनाव के पक्ष में मतदान करने की चुनौती दी।

जॉनसन ने बुधवार को संसद में तीखी बहस के दौरान कहा कि अगर कॉर्बिन सरकार की ब्रेजिट रणनीति के खिलाफ एक मसौदा कानून के पक्ष में मतदान कर सकते हैं तो उन्हें इस देश के लोगों को अपना दृष्टिकोण रखने की अनुमति देने के लिए चुनाव का भी समर्थन करना चाहिए। जॉनसन को इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर 301 वोट ही मिले जबकि उनके खिलाफ 328 वोट पड़े। बोरिस जॉनसन इस वादे के साथ प्रधानमंत्री बने थे। अगर 31 अक्टूबर तक ब्रेजिट पर समझौता नहीं हुआ तो ही ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा जबकि विरोधी चाहते हैं कि यह समयसीमा बढ़ाई जाए। जॉनसन की खुद की पार्टी के 21 सांसदों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया जिससे देश में अक्टूबर के मध्य तक आम चुनाव कराए जाने की संभावना बनी है।

जॉनसन ने बुधवार को संसद में तीखी बहस के दौरान कहा कि अगर कॉर्बिन सरकार को ब्रेजिट रणनीति के खिलाफ मसौदा कानून के पक्ष में मतदान कर सकते हैं तो उन्हें इस देश के लोगों को अपना दृष्टिकोण रखने की अनुमति देने के लिए चुनाव का भी समर्थन करना चाहिए। जॉनसन बुधवार को संसद में नई ब्रेजिट नीति की ओर बढ़ते दिखे। इससे पहले उन्होंने किसी भी कीमत पर अगले महीने ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से निकालने का वादा किया था, जिस पर संसद में हुए मतदान में उन्हें निराशा हाथ लगी थी।


रोहिंग्या शिविरों में सेलफोन सेवाओं पर रोक

ढाका, 4 सितंबर (एपी)।

बांग्लादेश के दूरसंचार निर्यामक निकाय ने ऑपरटर्सों से देश के दक्षिणपूर्व में बेतरतीबी से फैले हुए शिविरों में सुरक्षा खतरों और फोन के गैरकानूनी इस्तेमाल का हवाला देते हुए मोबाइल सेवाएं बंद करने को कहा है। इन शिविरों में य्म्याम से भागे हुए हजाराों रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। बांग्लादेश दूरसंचार निर्यामक आयोग के प्रवक्ता जाकिर हुसैन खान ने कहा कि उन्होंने ऑपरटर्सों से सात दिन के भीतर आदेश पर जवाब देने के लिए कहा है।

चांद की धरती में छिपा हो सकता है मूल्यवान धातुओं का भंडार

टोरंटो, 4 सितंबर (भाषा)।



कनाडा के डलहौजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जेम्स ब्रेनन चांद पर मौजूद ज्वालामुखी

पथरों में पाए जाने वाले सल्फर का संबंध चांद के गर्भ में छुपे आयरन सल्फेट से जोड़ने में सफल रहे हैं। पर मौजूद धातु भंडार की जांच और विश्लेषण से पता चलता है कि प्लैटिनम और पलाडियम की सल्फर की मौजूदगी, उसकी गहराई में आयरन सल्फाइड की उपस्थिति का अहम संकेत है। हमारे विचार से, जब लावा बना तब कई बहुमूल्य धातुएं पीछे दब गईं।

नई दिल्ली